



निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 36 पटना, बुधवार, 18 भाद्र 1937 (श0)  
9 सितम्बर 2015 (ई0)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-5
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	6-11
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	12-13

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सामान्य प्रशासन विभाग

vf/kl puk a

26 अगस्त 2015

सं० 1/अ०-15/2012-सा०प्र०-12605—श्री आर० के० खण्डेलवाल, भा०प्र०से० (89), आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 15.07.2015 से दिनांक 14.08.2015 तक कुल 31 (एकतीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री आर० के० खण्डेलवाल, भा०प्र०से० (89) को दिनांक 15.08.2015 एवं 16.08.2015 को राजपत्रित/रविवारीय अवकाश को छुट्टी के अंत में जोड़ने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

3. दिनांक 15.07.2015 से दिनांक 21.07.2015 तक की कार्य अवधि के लिए कुल 05 दिनों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक-10099 दिनांक 13.07.2015 निरस्त किया जाता है।

4. महालेखाकार, बिहार, पटना से अनुरोध है कि श्री आर० के० खण्डेलवाल, भा०प्र०से० (89) की छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेज दें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

14 जुलाई 2015

सं० 1/ एल०-30/97-सा०प्र०-10108—श्री राहुल सिंह, भा०प्र०से० (96), सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार उत्पाद आयुक्त-सह- निबंधन महानिरीक्षक/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 10.08.2015 से दिनांक 27.08.2015 तक कुल 18 (अठारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति उक्त अवधि में निजी खर्च पर विदेश (यू०एस०ए०) यात्रा की अनुमति के साथ प्रदान की जाती है।

2. अवकाश की उपर्युक्त अवधि में श्री विनय कुमार, भा०प्र०से० (99), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना) अपने कार्यों एवं सभी दायित्वों के अतिरिक्त श्री राहुल सिंह द्वारा धारित पदों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

14 जुलाई 2015

सं० 1/एल०-40/1998-सा०प्र०-10177—श्री एच०आर० श्रीनिवास, भा०प्र०से० (96), सचिव, संसाधन, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20

के अधीन दिनांक 03.06.2015 से दिनांक 30.06.2015 तक कुल 28 (अठाईस) दिनों के रूपांतरित अवकाश (56 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

foùk foHkx

vf/kl puk a  
1 fl rfcj 2015

सं० 1/स्था०(ले०से०)—12/2014—7624@वि०—श्री क्यामुल हक अंसारी, बिहार वित्त सेवा, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, निर्मली, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/स्था०(ले०से०)—12/2014—7625@वि०—श्री प्रमोद कुमार, बिहार वित्त सेवा, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/स्था०(ले०से०)—12/2014—7626@वि०—श्री प्रेम पुष्प कुमार, बिहार लेखा सेवा, अवर बजट नियंत्रक—सह—अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/स्था०(ले०से०)—12/2014—7627@वि०—श्री विनय कुमार, बिहार लेखा सेवा, वरीय लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/स्था०(ले०से०)—12/2014—7628@वि०—श्री विजय कुमार रजक, बिहार लेखा सेवा, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/स्था०(ले०से०)—12/2014—7629@वि०—श्री अनिल कुमार सिंह, बिहार लेखा सेवा, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, नालन्दा को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/स्था०(ले०से०)—12/2014—7630@वि०—श्री राम लक्षण सत्यार्थी, बिहार लेखा सेवा, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सभी स्थानांतरित पदाधिकारी बिना पारगमन काल का उपभोग किये अपने नवपदस्थापित स्थान पर तुरंत योगदान करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही सभी नियंत्री पदाधिकारी उपरोक्त स्थानान्तरित पदाधिकारियों को उनके प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानीय व्यवस्था कर अधिसूचना प्राप्ति के साथ विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

योजना एवं विकास विभाग

vf/kl puk  
29 अगस्त 2015

सं० यो03/3—16/99—142 (प्र0स0को0)/यो0वि0—श्री अशोक कुमार मिश्रा को बिहार राज्य योजना पर्सद, पटना के सदस्य, आधारभूत संरचना प्रक्षेत्र के पद पर अगले आदेश तक मनोनीत किया जाता है।

2. श्री मिश्रा को राज्य मंत्री को अनुमान्य सभी सुविधाएँ देय होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० दीपक प्रसाद, प्रधान सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

27 अगस्त 2015

1. श्री यतीन कुमार सुमन, बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर पदाधिकारी द्वारा दिनांक 24.08.2015 के अपराह्न से अपने पद से त्याग पत्र दिया गया है। श्री सुमन का त्याग पत्र दिनांक 24.08.15 के अपराह्न से स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(हो) अस्पष्ट, अवर सचिव।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय आदेश

21 अगस्त 2015

सं० 1/एम-1-1050/2015-23—श्री वरदान आनंद, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं०-06, पटना जिनकी नियुक्ति विभागीय अधिसूचना सं०-39, दिनांक 22.01.2014 के द्वारा सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतनमान-पी०बी०-2-9300-34800/- एवं ग्रेड पे०-5400/- में की गई थी, का चयन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2013 के आधार पर केन्द्रीय जल अभियंत्रण सेवा (वर्ग-क) के लिए किये जाने एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा इनकी नियुक्ति सहायक कार्यपालक अभियंता/सहायक निदेशक पे बैंड-3-15600-39100/- + ग्रेड पे०-5400/- के पद पर किये जाने के फलस्वरूप श्री आनंद द्वारा दिनांक 20.08.2015 के प्रभाव से तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः उपरोक्त के आलोक में श्री वरदान आनंद, सहायक अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं०-06, पटना के द्वारा समर्पित तकनीकी त्यागपत्र को दिनांक 20.08.2015 (अपराह्न) के प्रभाव से स्वीकार करते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में योगदान हेतु विरमित किया जाता है।

3. इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,  
राजेन्द्र प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव।

dlkj , oal dlkj l ok j fujh k lky; |xg foHkx

अधिसूचना

10 अगस्त 2015

सं० कारा/स्था० (अधी)01-15/2015-4710—राज्य की काराओं में पदस्थापित बिहार कारा सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्तंभ-4 के पदस्थापन स्थल पर पदस्थापित किया जाता है:-

00	in k / dljh dk uke rFk xg ft yk	orZku inLFki u	uo inLFki u
1	2	3	4
1	श्री प्रताप नारायण सिंह, नालंदा	केन्द्रीय कारा, गया	अवकाश रक्षित पद के विरुद्ध कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, मुख्यालय, पटना में योगदान करेंगे। धारित ग्रेड (केन्द्रीय काराधीक्षक) का वेतनमान देय होगा।
2	श्री राजीव कुमार झा, सहरसा	मंडल कारा, अररिया	अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया। धारित ग्रेड (उप काराधीक्षक) का वेतनमान देय होगा।

2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश के आलोक में बिना पारगमन काल/बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभार सौंपते हुए तुरंत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. स्थानान्तरित-पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को माह अगस्त, 2015 का वेतन नव पदस्थापन स्थल से विकलनीय होगा।

fcgkj&jkT; i ky ds vlnsk l §  
vkefj l qgkuh izlku l fpoA

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

27 अगस्त 2015

सं०-03/न्या०-16-01/2015-3819—माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) सं०-309/2003, 330/2001, 44/2004 एवं 688/2007 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना सं०-1124 दिनांक 02.11.2012 द्वारा राज्य में वधशाला के लिए एक कमिटी का गठन किया गया है, जिसके क्रमांक-09 में राज्य सरकार द्वारा दो सदस्य नामित करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार की ओर से दो प्रतिनिधि को निम्नवत् नामित किया जाता है:—

क्र०सं०

नामित प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम

- |     |  |
|-----|--|
| (1) | श्री दामोदर प्रसाद — न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) |
| (2) | श्री कमरुद्दीन — बि०प्र०से० (सेवानिवृत्त)    |

बिहार—राज्यपाल के आदेश से  
जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 25—571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-2

### बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

ty l d k/ku foHkx

अधिसूचनाएं

10 फरवरी 2015

सं० 16/विविध-09-14/14/291—जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत पुनर्वास कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, भागलपुर का संविलयन पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल के साथ किया जाता है।

2. विलय के फलस्वरूप पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल में स्वीकृत पदों की संख्या कॉलम 3 के अनुरूप है, जिसमें कॉलम 4 में अंकित पद तत्काल सुसुप्तावस्था में रहेंगे एवं शेष कॉलम 5 में वर्णित पद कार्यरत पद माने जायेंगे।

Øekd	inuke	iqolZ dk lZy;] dlekh ; kt uk l qkY , oae/; e fl pkbZifj; kt uk Hkxyig dksfeykdj dY inladh l æ	l d qrkolFlk ea j [lax; s dY inladh l æ	dk Zr j [l x; sinladh l æ
1	2	3	4	5
1	पुनर्वास पदाधिकारी	01+01=02	1	1
2	सहायक पुनर्वास पदा०	01+00=01	1	0
3	कनीय अभियंता (अधिदर्शक)	03+02=05	3	2
4	पुनर्वास निरीक्षक	00+02=02	0	2
5	प्रधान लिपिक	01+01=02	1	1
6	निम्नवर्गीय लिपिक	01+02=03	0	3
7	वरीय लेखा लिपिक	01+01=02	1	1
8	कनीय लेखा लिपिक	02+02=04	2	2
9	टंकक	01+01=02	1	1
10	भंडारपाल	01+01=02	1	1
11	परिमापक-सह-प्रारूपकार	01+01=02	1	1
12	परिमापक	02+02=04	2	2
13	मापक	11+08=19	0	19
14	जीपचालक	01+01=02	1	1
15	अनुरेखक	01+01=02	1	1
16	नलकूप मिस्त्री	01+01=02	1	1
17	दफ्तरी	01+01=02	1	1
18	कोषरक्षक	02+01=03	2	1
19	आदेशपाल	01+01=02	0	2
20	रात्रि प्रहरी	01+01=02	1	1
21	कार्यालय चपरासी	01+02=03	1	2
22	आदेशिका चपरासी	03+01=04	1	3
23	प्रशाखा चपरासी	03+02=05	2	3
24	जंजीरवाहक	21+15=36	15	21

3. पुनर्वास कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, भागलपुर में स्थायी रूप से स्वीकृत राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों को दि० 01.04.15 के प्रभाव से पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल के पदों के साथ उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित शर्तों के अनुरूप विलय किया जाता है।

4. पुनर्वास कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, भागलपुर में लंबित सारे मामले एवं अन्य कार्य का निष्पादन पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल द्वारा किया जाएगा।

5. पुनर्वास कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, भागलपुर में पदस्थापित सभी कर्मचारी संविलयन के पश्चात् पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल के कर्मी माने जायेंगे।

6. संविलयन के पश्चात् पुनर्वास कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, भागलपुर के अभिलेखों, संचिकाओं एवं अन्य सामग्रियों का प्रभार पुनर्वास पदाधिकारी, कोशी योजना, सुपौल ग्रहण करेंगे एवं पुनर्वास कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल में लाकर उसे सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेशानुसार,  
दीपक कुमार सिंह, सचिव।

The 10<sup>th</sup> February 2015

No. 16/Misc-09-14/14/291—Merger of Rehabilitation Office, Medium Irrigation Project, Bhagalpur of the Water Resources Department, Bihar is being done here by with the Rehabilitation Office, Koshi Project, Supaul.

2. Consequent to the merger, the number of sanctioned posts in the Rehabilitation Office, Koshi Project, Supaul will be as mentioned in column-3 out of which the posts mentioned in Column-4 will remain in dormant condition at present and the remaining posts as mentioned in Column-5 will be treated to be working posts.

Sl. No.	Designation	Total No. of sanctioned posts in Rehabilitation Office. Koshi Project, Supaul and Medium Irrigation Project, Bhagalpur.	No. of posts kept in dormant condition	No. of posts kept in working condition.
1	2	3	4	5
1	Rehabilitation Office	01+01=02	01	01
2	Assistant Rehabilitation Office	01+00=01	01	00
3	Junior Engineer (Overseer)	03+01=05	03	02
4	Rehabilitation Inspector	00+02=02	00	02
5	Head Clerk	01+01=02	01	01
6	Lower Division Clerk	01+02=03	00	03
7	Senior Division Clerk	01+01=02	01	01
8	Junior Accounts Clerk	02+02=04	02	02
9	Typist	01+01=02	01	01
10	Store Keeper	01+01=02	01	01
11	Surveyor-cum-Draftsman	01+01=02	01	01
12	Surveyor	02+02=04	02	02
13	Mapak	11+08=19	00	19
14	Jeep Driver	01+01=02	01	01
15	Anurekhak	01+01=02	01	01
16	Tube Well Mechanic	01+01=02	01	01
17	Daftari	01+01=02	01	01
18	Treasury Guard	02+01=03	02	01
19	Orderly	01+01=02	00	02
20	Night Guard	01+01=02	01	01
21	Office attendant	01+02=03	01	02
22	Process peon	03+01=04	01	03
23	Section Peon	03+02=05	02	03
24	Chainman	21+15=36	15	21

3. The permanent gazetted and non-gazetted posts sanctioned in the Rehabilitation Office, Medium Irrigation Project, Bhagalpur are merged with the posts of Rehabilitation Office, Koshi Project, Supaul with effect from 01.04.2015 in terms of the conditions mentioned in the aforesaid Paragraph-2.

4. After the merger all the cases pending in the Rehabilitation Office, Medium Irrigation Project, Bhagalpur and other works will be disposed of and executed by the Rehabilitation Office, Koshi Project, Supaul.

5. All the employees posted in the Rehabilitation Office, Medium Irrigation Project, Bhagalpur will be treated as the employees of the Rehabilitation Office, Koshi Project, Supaul after the merger.

6. The Rehabilitation Officer, Koshi Project, Supaul will assume charge of records, files and other materials of the Rehabilitation Office, Medium Irrigation Project, Bhagalpur after the merger and will make proper arrangement to keep the same safely in Rehabilitation Officer, Koshi Project, Supaul.

By Order of the Governor of Bihar,  
Dipak Kumar Singh, Secretary.

## 22 दिसम्बर 2014

सं० 16/विविध-09-15/14/2162—जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, सकरी (मधुबनी) का संविलयन विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, दरभंगा के साथ किया जाता है।

2. विलय के फलस्वरूप विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, दरभंगा में स्वीकृत पदों की सं० कॉलम 3 के अनुरूप है, जिसमें कॉलम 4 में अंकित पद तत्काल सुसुप्तावस्था में रहेंगे एवं शेष कॉलम 5 में वर्णित पद कार्यरत पद माने जायेंगे।

क्र.सं.	पद	विलयित पदों की सं०	विलयित पदों की सं०	विलयित पदों की सं०
1	2	3	4	5
1	विशेष भू-अर्जन पदा०	01+01=02	1	1
2	प्रधान लिपिक	01+01=02	1	1
3	रोकड़पाल	01+01=02	1	1
4	वरिय लेखा लिपिक	01+01=02	1	1
5	लिपिक	04+04=08	0	8
6	टंकक	01+01=02	0	2
7	परिमापक-सह-प्रारूपकार	01+01=02	1	1
8	प्रारूपकार	02+02=04	2	2
9	परिमापक	05+04=09	4	5
10	मापक	15+15=30	0	30
11	कोषरक्षक	02+02=04	2	2
12	दफ्तरी	01+01=02	1	1
13	कार्यालय चपरासी	02+02=04	0	4
14	आदेशिका चपरासी	04+04=08	0	8
15	आदेशपाल	01+01=02	0	2
16	जंजीरवाहक	30+30=60	30	30
17	पाटलिक (कानूनगो)	02+02=04	2	2
18	जीपचालक	01+01=02	1	1

3. विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, सकरी (मधुबनी) में स्थायी रूप से स्वीकृत राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों को दि० 01.04.15 के प्रभाव से विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, दरभंगा के पदों के साथ उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित शर्तों के अनुरूप विलय किया जाता है।

4. विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, सकरी (मधुबनी) में लंबित भू-अर्जन संबंधी मामले एवं अन्य कार्यों का निष्पादन विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, दरभंगा द्वारा किया जाएगा।

5. विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, सकरी (मधुबनी) में पदस्थापित सभी कर्मचारी संविलयन के पश्चात् विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, दरभंगा के कर्मी माने जायेंगे।

6. संविलयन के पश्चात् विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, सकरी (मधुबनी) के अभिलेखों, संचिकाओं एवं अन्य सामग्रियों का प्रभार विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, दरभंगा ग्रहण करेंगे एवं विशेष भू-अर्जन कार्यालय, कोशी योजना, दरभंगा में लाकर उसे सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेशानुसार,  
दीपक कुमार सिंह, सचिव।

The 22<sup>nd</sup> December 2014

No. 16/Misc-09-15/14/2162—Merger of Special Land Acquisition, Koshi Project, Sakri (Madhubani) of the Water Resources Department, Bihar is being done here by with the special Land Acquisition Office, Koshi Project, Darbhanga.

2. Consequent to the merger, the number of sanctioned posts in the Special Land Acquisition, Koshi Project, Darbhanga will be as mentioned in column-3 out of which the posts mentioned in Column-4 will remain in dormant condition at present and the remaining posts as mentioned in Column-5 will be treated to be working posts.

Sl. No.	Designation	Total No. of sanctioned posts in Spl. L.A.O. Koshi Project, Sakri (Madhubani) and Darbhanga	No. of posts kept in dormant condition	No. of posts kept in working condition.
1	2	3	4	5
1	Special land Acquisition officer	01+01=02	01	01
2	Head Clerk	01+01=02	01	01
3	Cashier	01+01=02	01	01
4	Senior Accounts Clerk	01+01=02	01	01
5	Clerk	04+04=08	00	08
6	Typist	01+01=02	01	01
7	Surveyor-cum-Draftsman	01+01=02	01	01
8	Draftsman	02+02=04	02	02
9	Surveyor	05+04=09	04	05
10	Mapak	15+15=30	00	30
11	Treasure Guard	02+02=04	02	02
12	Daftari	01+01=02	01	01
13	Office attendant	02+02=04	00	04
14	Process peon	04+04=08	00	08
15	Orderly	01+01=02	00	02
16	Chainman	30+30=60	30	30
17	Kanoongo	02+02=04	02	02
18	Jeep Driver	01+01=02	01	01

3. The permanent gazetted and non-gazetted posts sanctioned in the Special Land Acquisition Office, Koshi Project, Sakri (Madhubani) are merged with the posts of Special Land Acquisition, Koshi Project, Darbhanga with effect from 01.04.2015 in terms of the conditions mentioned in the aforesaid Paragraph-2.

4. All the Land Acquisition cases pending in Special Land Acquisition Office, Koshi Project, Sakri (Madhubani) and other works will be disposed of and executed by the Special Land Acquisition Office, Koshi Project, Darbhanga.

5. All the employees posted in the Special Land Acquisition Office, Koshi Project, Sakri (Madhubani) will be treated as the employees of the Special Land Acquisition Office, Koshi Project, Darbhanga after the merger.

6. The Special Land Acquisition Office, Koshi Project, Darbhanga will assume charge of records, files and other materials of the Special Land Acquisition Office, Koshi Project, Sakri (Madhubani) after the merger and will make proper arrangement to keep the same safely in Special Land Acquisition Office, Koshi Project, Darbhanga.

*By Order of the Governor of Bihar,  
Dipak Kumar Singh, Secretary.*

29 दिसम्बर 2014

सं० 16/विविध-09-15/14/2231—जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, छपरा का संविलयन विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के साथ किया जाता है।

2. विलय के फलस्वरूप विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर में स्वीकृत पदों की संख्या कॉलम 3 के अनुरूप है, जिसमें कॉलम 4 में अंकित पद तत्काल सुसुप्तावस्था में रहेंगे एवं शेष कॉलम 5 में वर्णित पद कार्यरत पद माने जायेंगे।

Øekl	inuke	fo0 H0v0 dk l0] xMl ; kt uk eq 1Qjiq , oaNijk dkfeykdj dy inkadh l 0	l q 0rkoLFkk eaj [lax; s dy ink dh l 0	dk 3r j [lax; s inkdh l 0
1	2	3	4	5
1	विशेष भू-अर्जन पदा०	01+02	2	1
2	प्रधान लिपिक	01+02	2	1
3	रोकड़पाल	01+02	2	1
4	वरीय लेखा लिपिक	01+02	2	1
5	लिपिक	04+08	4	8
6	टंकक	01+02	1	2
7	परिमापक-सह-प्रारूपकार	01+02	1	2
8	प्रारूपकार	02+04	2	4
9	परिमापक	05+10	10	5
10	मापक	15+30	0	45
11	कोषरक्षक	02+04	4	2
12	दफ्तरी	01+01	1	1
13	कार्यालय चपरासी	02+04	2	4
14	आदेशिका चपरासी	04+08	4	8
15	आदेशपाल	01+02	1	2
16	जंजीरवाहक	30+60	20	70
17	कानूनगो	02+03	3	2
18	जीपचालक	01+02	2	1

3. विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, छपरा में स्थायी रूप से स्वीकृत राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों को दिनांक 01.04.15 के प्रभाव से विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के पदों के साथ उपर्युक्त कडिका-2 में वर्णित शर्तों के अनुरूप विलय किया जाता है।

4. विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, छपरा में लंबित भू-अर्जन संबंधी सारे मामले एवं अन्य कार्यों का निष्पादन विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर द्वारा संपादित किया जाएगा।

5. विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, छपरा में पदस्थापित सभी कर्मचारी संविलयन के पश्चात् विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के कर्मी माने जायेंगे।

6. संविलयन के पश्चात् विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, छपरा के अभिलेखों, संचिकाओं एवं अन्य सामग्रियों का प्रभार विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर ग्रहण करेंगे एवं विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर में लाकर उसे सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेशानुसार,  
दीपक कुमार सिंह, सचिव।

The 29<sup>th</sup> December 2014

No. 16/Misc-09-15/14/2231—Merger of Special Land Acquisition, Gandak Project, Chhapra of the Water Resources Department, Bihar is being done here by with the special Land Acquisition Office, Gandak Project, Muzaffarpur.

2. Consequent to the merger, the number of sanctioned posts in the Special Land Acquisition, Gandak Project, Muzaffarpur will be as mentioned in column-3 out of which the posts mentioned in Column-4 will remain in dormant condition at present and the remaining posts as mentioned in Column-5 will be treated to be working posts.

Sl. No.	Designation	Total No. of sanctioned posts in Spl. L.A.O. Gandak Project, Chhapra and Muzaffarpur.	No. of posts kept in dormant condition	No. of posts kept in working condition.
1	2	3	4	5
1	Special land Acquisition officer	01+02=03	02	01
2	Head Clerk	01+02=03	02	01
3	Cashier	01+02=03	02	01
4	Senior Accounts Clerk	01+02=03	02	01
5	Clerk	04+08=12	04	08
6	Typist	01+02=03	01	02
7	Surveyor-cum-Draftsman	01+02=03	01	02
8	Draftsman	02+04=06	02	04
9	Surveyor	05+10=15	10	05
10	Mapak	15+30=45	00	30
11	Treasury Guard	02+04=06	04	02
12	Daftari	01+01=02	01	01
13	Office attendant	02+04=04	02	04
14	Process peon	04+08=12	04	08
15	Orderly	01+02=03	01	02
16	Chainman	30+60=90	20	70
17	Kanoongo	02+03=05	03	02
18	Jeep Driver	01+02=03	02	01

3. The permanent gazetted and Non- gazetted posts sanctioned in the Special Land Acquisition Office, Gandak Project, Chhapra are merged with the posts of Special Land Acquisition, Gandak Project, Muzaffarpur with effect from 01.04.2015 in terms of the conditions mentioned in the aforesaid Paragraph-2.

4. All the Land Acquisition cases pending in the Special Land Acquisition Office, Gandak Project, Chhapra and other works will be disposed of and executed by the Special Land Acquisition Office, Gandak Project, Muzaffarpur.

5. All the employees posted in the Special Land Acquisition Office, Gandak Project, Chhapra will be treated as the employees of the Special Land Acquisition Office, Gandak Project, Muzaffarpur after the merger.

6. The Special Land Acquisition Office, Gandak Project, Muzaffarpur will assume charge of records, files and other materials of the Special Land Acquisition Office, Gandak Project, Chhapra after the merger and will make proper arrangement to keep the same safely in Special Land Acquisition Office, Gandak Project, Muzaffarpur.

*By Order of the Governor of Bihar,  
Dipak Kumar Singh, Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 25—571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

vijkk vud ākkū foHkk

vkśk

26 vxLr 2015

सं० अप०/स्था०/आरोप-6-09/2010-1257/स्था०—श्री संतोष कुमार, तत्कालीन वरीय वैज्ञानिक सहायक, विस्फोटक प्रशाखा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना पर मोहनिया थाना कांड सं०-219/2005, दुर्गावती थाना सं०-66/2004, सासाराम थाना कांड सं०-323/2003, सिमरी (बक्सर) थाना कांड सं०-125/2002 एवं बक्सर मुफस्सिल थाना कांड सं०-133/2003 में जाली जाँच-प्रतिवेदन निर्गत किये जाने के संबंध में संलिप्तता पाये जाने पर अपराध अनुसंधान विभाग के ज्ञापांक-754, दिनांक 27.07.2007 के आलोक में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के ज्ञापांक-1427, दिनांक 01.08.2007 के द्वारा शास्त्रीनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई।

जाली जाँच-प्रतिवेदन निर्गत किये जाने के विषय पर पटना पुलिस के अनुसंधान के क्रम में हरनौत थाना कांड सं०-195/2009 एवं भभुआ थाना कांड सं०-344/2009 में श्री संतोष कुमार के द्वारा जाली जाँच-प्रतिवेदन तैयार किये जाने की बात स्वीकार की गई।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध जाली जाँच-प्रतिवेदन निर्गत किये जाने से संबंधित कुल 05 (पाँच) कांडों में आरोप गठित करते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा-446/467/468/471/474/420/120(बी) एवं धारा-13(1)(डी0) भा०नि० अधि० 188 के अन्तर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्राप्त कर माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया।

श्री कुमार का चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति, गैर-जिम्मेदाराना रहने के आधार पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध आरोप को सिद्ध पाया गया, जिससे सहमत होते हुए निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना के द्वारा प्रयोगशाला के आदेश ज्ञापांक-553, दिनांक 04.07.2014 के द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना के ज्ञापांक-328/पटना-23, दिनांक 30.04.2015 द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के ज्ञापांक-328 पटना-23, शास्त्री नगर थाना कांड सं०-175/2007 -निग०-742/अप०शा०, दिनांक 22.04.2013, धारा-466/467/468/471/474/420/120(बी) भा० द० नि० एवं 13 (2) सह पठित धारा-13 (1)(डी) भ० नि० अधि०-1988 एवं धारा-197 द्र० प्र० सं० एवं धारा-19 भ० नि० अधि०, 1988 के अधीन आरोपों के लिए श्री संतोष कुमार, वैज्ञानिक सहायक, बिहार, पटना के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्रदान किया गया।

उक्त बर्खास्तगी आदेश ज्ञापांक-553, दिनांक 04.07.2014 के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा दिनांक 22.08.2014 को प्रभारी निदेशक, क्षेत्रीय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अपील दायर किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध बर्खास्तगी से संबंधित मूल आदेश निदेशक (धारित वेतनमान 37,400-67,000+ग्रेड पे 8700/-) द्वारा पारित किया गया, को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 भाग-VII के नियम 24(i) (ii) में निहित प्रावधान के तहत पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के द्वारा अपील की सुनवाई पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना के स्तर पर करने का आदेश दिया गया।

अपीलीय पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रारूप, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना के द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश से सहमत होते हुए श्री संतोष कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया गया।

अपीलीय पदाधिकारी सह पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में श्री संतोष कुमार, तत्कालीन वैज्ञानिक सहायक, विस्फोटक प्रशाखा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना के विरुद्ध निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना के द्वारा पारित बर्खास्तगी सम्बन्धी आदेश ज्ञापांक-553, दिनांक 04.07.2014 को यथावत् रखा जाता है।

आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट, पुलिस महानिरीक्षक (अप०)

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 25—571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>